

मार्च, 2022 माह में किए गए राजभाषा विभाग, नागपुर मंडल के विविध गतिविधियां

मार्च, 2022 माह में किए गए विविध गतिविधियां :

1. क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक - दिनांक 24.03.2022 को महाप्रबंधक महोदय की अध्यक्षता में आयोजित क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति, बिलासपुर की ऑनलाइन बैठक में श्री ए.के. सूर्यवंशी, अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी व अपर मंडल रेल प्रबंधक (परि) तथा श्री गौतम श्रीवास्तव, राजभाषा अधिकारी शामिल हुए।
2. मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक - दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, नागपुर मंडल की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष 2022 की प्रथम बैठक का आयोजन दिनांक 29.03.2022 को मंडल सभाकक्ष में किया गया। बैठक की अध्यक्षता श्री मनिन्दर उप्पल, मंडल रेल प्रबंधक द्वारा की गई। बैठक में श्री ए.के. सूर्यवंशी, अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी व अपर मंडल रेल प्रबंधक (परि) तथा सभी शाखाधिकारी/उनके प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक का संचालन समिति के सचिव व राजभाषा अधिकारी श्री गौतम श्रीवास्तव द्वारा किया गया।



3. स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों का ऑनलाइन आयोजन - दिनांक 03.03.2022 को छिंदवाड़ा स्टेशन, दिनांक 04.03.2022 को नागभीड़ स्टेशन, दिनांक 24.03.2022 को कामठी स्टेशन, दिनांक 25.03.2022 को डोंगरगढ़ स्टेशन तथा 25.03.2022 को राजनांदगांव स्टेशन के राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों का ऑनलाइन आयोजन किया गया।
4. राजभाषा निरीक्षण - मार्च, 2022 में श्री गौतम श्रीवास्तव, राजभाषा अधिकारी द्वारा मंडल कार्यालय के कार्मिक विभाग के पी.एन.एम. अनुभाग एवं भंडार अनुभाग, वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर (रेलपथ)/ तुमसर रोड, वाणिज्य अधीक्षक (बुकिंग)/डोंगरगढ़ तथा वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर (रेलपथ)/डोंगरगढ़ के कार्यालयों में राजभाषा विषयक मदों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाई गई त्रुटियों को दूर करने हेतु मार्गदर्शन एवं परामर्श दिया गया।




5. जयंतियों का आयोजन - मंडल कार्यालय के मुंशी प्रेमचंद पुस्तकालय में दिनांक 04.03.2022 को हिंदी साहित्य के प्रख्यात साहित्यकार फणीश्वरनाथ रेणु तथा दिनांक 26.03.2022 को शनिवार होने के कारण अगले कार्यदिवस 28.03.2022 को सुप्रसिद्ध कवयित्री महादेवी वर्मा की जयंती का आयोजन किया गया।

6. हिंदी कार्यशाला - (क) श्री गौतम श्रीवास्तव, राजभाषा अधिकारी द्वारा दिनांक 25.03.2022 को 12:00 बजे से 13:00 बजे तक 'राजभाषा में काम करने में आने वाली कठिनाइयों का निवारण' विषय पर हिंदी कार्यशाला का ऑनलाइन आयोजन किया गया जिसमें कुल 18 रेलकर्मियों उपस्थित थे।

(ख) श्री गौतम श्रीवास्तव, राजभाषा अधिकारी द्वारा दिनांक 30.03.2021 को 16:00 बजे से 17:30 बजे तक 'कार्यालय के दैनिक कार्यों में हिंदी में टिप्पणी/नोटिंग तैयार करना' विषय पर ऑनलाइन हिंदी कार्यशाला का किया गया। इस कार्यशाला में कुल 25 रेलकर्मियों ने प्रतिभाग किया।

7. हिंदी में अनुवाद - संदर्भित माह में श्रीमती अनिता यू. जुमानी, वरिष्ठ अनुवादक एवं श्रीमती मीना सहारे, वरिष्ठ अनुवादक द्वारा इंजीनियरी विभाग के 'कीमैन, मेट एवं रेल पथ पर्यवेक्षकों के लिए एल.डब्ल्यू.आर.' (कुल 02 पृष्ठ) का हिंदी में अनुवाद कर उन्हें उपलब्ध कराया गया। साथ ही वित्त, सिगनल एवं दूरसंचार विभागों से प्राप्त दस्तावेजों (कुल 08 पृष्ठ) का भी हिंदी में अनुवाद किया गया।

8. टेबल ट्रेनिंग - माह के दौरान राजभाषा अधिकारी के मार्गदर्शन में राजभाषा विभाग के कार्मिकों - श्रीमती अनिता यू. जुमानी, वरिष्ठ अनुवादक, श्रीमती मीना सहारे, वरिष्ठ अनुवादक तथा श्री स्वप्निल ओम निकोसे, कनिष्ठ अनुवादक द्वारा एक अभियान चलाकर कार्मिक विभाग के कुल 09 कार्मिकों को टेबल ट्रेनिंग के माध्यम से उन्हें एच.आर.एम.एस. (उपलब्ध सुविधानुसार) में हिंदी में काम करने तथा सेवा पंजियों में हिंदी में प्रविष्टियां करने हेतु प्रेरित किया गया।



9. यूनिकोड सक्रियण : संदर्भित माह के दौरान सुरक्षा एवं वित्त विभाग के नए खरीदे गए/ फार्मेटिंग किए गए कुल 05 कम्प्यूटरों में यूनिकोड इंस्टाल किया गया।